

#### IndiaMART InterMESH Ltd.

6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra,
Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P.
Call Us: +91 - 9696969696
E: customercare@indiamart.com
Website: www.indiamart.com

Date: January 19, 2021

To

BSE Limited (BSE: 542726)

**National Stock Exchange of India Limited** 

(NSE: INDIAMART)

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published Audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

Please find enclosed a copy of the advertisements published in the following newspapers on January 19, 2021:

- Mint (English Language National Daily Newspaper All India) and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper Delhi).

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For Indiamart Intermesh Limited

(Manoj Bhargava)


Sr. Vice President (Legal & Secretarial),

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.









#### **Petrol prices hit** fresh record again

Petrol prices in Delhi registered a record high on Monday, with OMCs again increasing it by 25 paise/litre. See Page 6

#### Salesforce puts \$15 mn in Darwinbox Salesforce has invested \$15 million in Darwinbox

-its first investment in an Indian venture. See Page 6



#### remedies soon

HDFC Bank has given the central bank a blueprint on how it plans to fix issues around e-banking See Page 8 outages.

#### **Theatre owners** seek tax relief

Theatre owners are seeking some respite. including easier terms to run business, from the See Page 8 budget.

## Post-vaccination deaths not related to jab: health ministry

Two people died within 48 hours of receiving covid-19 vaccine; post-mortem report on one fatality is due



Party to

open for

contest 2022

UP polls on its

Neetu Chandra Sharma neetu.s@livemint.com **NEW DELHI** 

wo people—both men, one in Uttar Pradesh and the other in Karnataka-have died in India within 48 hours of receiving the covid-19 vaccine, according to official data released on Monday. However, the Uttar Pradesh death was not related to the vaccination, the government said, while the post-mortem report on the other man is due.

A 52-year-old man from Moradabad, UP, was vaccinated on Saturday and died on Sunday evening. But his death was not related to the vaccination as per the post-mortem report, said Manohar Agnani, additional secretary in the health ministry. "Post-mortem by a board of three doctors revealed death due to cardiopulmonary disease (pockets of pus in lungs) and enlarged heart," he said.

The second death was of a 43-year-old man from Bellary in Karnataka. He too was vaccinated on Saturday and died on Monday.

"The cause of death is anterior wall infarction with cardiopulmonary failure. The post mortem is scheduled today (Monday) at Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary, Karnataka," Agnani said.

As India entered the third day of



So far, more than 381,000 people have been vaccinated, including over 148,000 on Monday.

a countrywide covid-19 vaccination programme on Monday, at least 580 people have reported Adverse Event Following Immunization (AEFI).

Most complained of fever, headache and nausea, according to the provisional government data. The government

said there has been no case of serious or severe

AEFI on account to vaccination. An AEFI is any unexpected medical occurrence which may

not necessarily be related to the vaccine or vaccination process. "Of the total AEFI cases, seven

**IAB IITTERS** 

**THE** second death A 52-year-old man from Moradabad, UP, was of a 43-year-old man from Bellary, was vaccinated on Saturday and died who died on Monday on Sunday evening

post-vaccine on Sat

the three cases reported from Delhi, two have been discharged whereas one case of reported

fainting is under observation at

Max Hospital, Patparganj," said Agnani.

"The reported case of AEFI in have required hospitalization. Of | Uttarakhand is stable and under

observation at AIIMS, Rishikesh. In Chhattisgarh, AT least 580 people one person is in India have reported under observation Adverse Event at the Government Medica Immunization (AEFI) College, Rajnand-

gaon. Of the two cases of AEFI in Karnataka, one is under observation at District Hospital, Chitradurga and the second person is under observation at

General Hospital, Challakere, Chitradurga," he said.

So far, more than 381,000 people have been vaccinated, including over 148,000 on Monday. Public health experts said covid-19 vaccination should be encouraged as vaccines don't generally cause deaths and adverse effects are common. India has granted emergency use authorization to two vaccines-Serum Institute of India's Covishield and Bharat Biotech International Ltd's Covaxin.

"Both the vaccines, which have been rolled out in India, have been found to be safe by the Drugs Controller General of India's expert Committee. It is not known which vaccine was given to the people who died," said Lalit Kant, a scientist and former head of epidemiology and communicable diseases at the Indian Council of Medical Research (ICMR).

"The interim analysis of the Phase-3 trial of AstraZaneca vaccine has been published and there have been no safety concerns. Data analysed of 11,000 participants had one death, that too in the control arm. Inactivated vaccines (like Covaxin) are generally safe, and unlikely to be related to death. The vaccinations should continue." The number of active cases on Monday stood at over 200,000. With 145 fatalities in the last 24 hours, the death toll climbed to more than 153,000.



Narendra Modi

@narendramodi From better roads to mitigating water challenges...to better education facilities...The transformation across rural Gujarat is for everyone to see.



**Kamala Harris** @KamalaHarris

January 20 will mark a new chance to heal, rebuild, and strengthen our democracy. And fulfilling the promise will require each of us doing our part.



**Elon Musk** @elonmusk

Battery cell production is the fundamental rate-limiter slowing down a sustainable energy future. Very important problem.

#### Govt likely to set up DFIs to meet infra funding needs

Rajeev Jayaswal rajeev.jayaswal@htlive.com

**NEW DELHI** 

he creation of a mega development finance institution (DFI) by merging existing entities is likely to be announced in the Union budget 2021-22 to meet long-term funding needs of new, stalled and under-construction infrastructure projects worth over ₹100 trillion, two people aware of the development

said, requesting anonymity. A large DFI is necessary for rapid infrastructure development, which in turn will help put India on a higher growth trajectory, as it would have a cascading effect on all sectors of the economy, they added.

The budget, to be presented by finance minister Nirmala Sitharaman on I February, is expected to focus on reviving the economy following the massive slowdown due to the covid-19 outbreak and the 68-day stringent nationwide lockdown from 25

There is a need for a mega DFI as commercial banks are not suited for long-term financing of infrastructure projects with very long gestation periods, the people cited above said, adding that such an institution could also help revive stalled projects worth ₹10 trillion.

"Most of these projects are languishing because of a fund crunch," one of the two people, a government official, said. The proposed mega DFI "which may include an existing financial institution and some existing funds will meet the long-term financing need of these projects," he added.

## **Centre considers** rationalizing 120 autonomous bodies

alisha.dutta@hindustantimes.com **NEW DELHI** 

he Centre is considering rationalizing over 120 autonomous bodies under 23 central government ministries and departments after the department of expenditure submitted a review report on 231 such entities, officials aware of the development said, requesting anonymity.

In a slew of recommendations to the cabinet secretariat, a copy of which was reviewed by Hindustan Times, the department said 83 of the 231 autonomous bodies should be retained, while 117 must be merged into just 29. It said the Centre must disengage from 20 entities, and seven autonomous bodies should be closed.

The purpose of the exercise is "to make specific and actionable recommen-

dations for rationalization of autonomous bodies in the ministries or departments, with a view to furthering the aim of minimum government, maxi-

mum governance, and economical, efficient use of public funds," the department said.

In his 2016 budget speech, then finance minister Arun Jaitley announced the formation of a task force to rationalize human resources across ministries. He also contemplated a comprehensive review and rationalization of autonomous bodies.

In 2017, following recommendation by the Expenditure



A department of expenditure report said Centre must shut seven such bodies.

Management Commission (EMC) in a report submitted to the Centre, the finance ministry requested NITI Aayog to undertake a review of the autonomous bodies of Union government.

The policy think tank constituted a committee in January 2017 under the chairmanship of the principal adviser, NITI Aayog, to review the entities and make recommendations

for enhancing

their functioning.

interim report, the

committee recom-

mended setting up

umbrella struc-

In its draft

DoE report said 83 of the 231 autonomous bodies should be retained, while 117 must be merged into just 29

tures of autonomous bodies wherein a group of similar institutions could be brought

together under an overarching framework. The objective was to bring greater efficiency, oversight, standardization and mentoring support, without losing the plurality of disciplines or identities of individual bodies, it said. In 2018, the cabinet

approved the proposal for closure of two autonomous bodies-Rashtriya Arogya Nidhi and Jansankhya Sthirata Kosh.

Place: Noida

#### indiamart **INDIAMART INTERMESH LIMITED**

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subash Marg, Delhi -110002, India Phone: (+91) (11) 4999 5600, E-mail: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com **Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for** the quarter and nine months ended December 31, 2020

(INR Million except per share data)

_			Quarter ended			Mille Mollilla ellueu	
	Particulars	2020	September 30, 2020	2019	2020	2019	March 31, 2020
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income	1,982	1,811	1,815	5,661	5,202	7,075
2.	Income from operations	1,736	1,632	1,649	4,899	4,688	6,389
3.	Net Profit for the period (before	1,065	932	532	3,001	1,503	2,115
	Tax, Exceptional and/or						
	Extraordinary items but after share						
	of associate)						
4.	Net Profit for the period before tax	1,065	932	532	3,001	1,503	2,115
	(after Exceptional and/or						
	Extraordinary items)						
5.	Net Profit for the period after tax	802	698	620	2,241	1,031	1,474
	(after Exceptional and/or						
	Extraordinary items)						
6.	Total comprehensive income for	795	700	618	2,222	993	1,419
	the period [comprising profit for the						
	period (after tax) and other						
	comprehensive income (after tax)]						
7.	Equity Share Capital	291	289	289	291	289	289
8.	Other equity as per previous year					,	2,462
	(excluding revaluation reserves,						
	if any)						
9.	Basic and diluted earnings per						
	share (Face Value of INR 10 each)						
	(In INR.)						
	Basic EPS	27.61	24.18	21.45	77.46	35.80	51.14
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	
	Diluted EPS	27.19	23.75	21.12	76.15	35.21	50.24
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	
1		l	l	I	I	I	

The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31,2020 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on January 18.2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.

annualised) annualised) annualised) annualised) annualised)

The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com

The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December

		Quarter ended		Nine Mont	Year ended	
Particulars	December 31, 2020 Audited	September 30, 2020 Audited	December 31, 2019 Audited	December 31, 2020 Audited	December 31, 2019 Audited	March 31, 2020 Audited
Total Income	1,974	1,828	1,770	5,649	5,088	6,919
Income from operations	1,729	1,618	1,605	4,860	4,577	6,235
Net Profit before tax	1,078	979	543	3,082	1,530	2,100
Net Profit after tax	815	745	635	2,325	1,062	1,462
For and on behalf of the Board of Directors						

IndiaMART InterMESH Limited

Dinesh Chandra Agarwal Date: January 18, 2021 (Managing Director and Chief Executive Officer)

#### **Government of India Public Enterprises Selection Board**

invites applications for the post of

### **DIRECTOR (HUMAN RESOURCES)**

**BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL)** 

Last date of receipt of applications in PESB is by **15.00 hours on 25<sup>th</sup> March, 2021** For details login to website http://www.pesb.gov.in

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY

Powai, Mumbai-400 076

Advertisement No. RECT/ADMIN 0001/2021 Indian Institute of Technology Bombay, an Institute of national importance adjudged as Institute of Eminence, invites online applications for the

Sr. No.	Post	Pay Details	No. of Position & Reservation	
1	Executive Engineer (Scale-I)	Pay Level 10	1 (UR)	

(Job Ref. No. 50192337) | (56100 – 177500) | For details regarding essential educational qualification, experience, genera instructions, visit\_IIT Bombay website\_https://www.iitb.ac.in/en/careers/

The date of closing of online application interface is 18.02.2021.

Date: 19.01.2021 REGISTRAR



#### ITM UNIVERSITY<sup>®</sup>

A UGC Recognized-Listed Private University u/s 2(f) of UGC Act 1956, established by C. G. Pvt. Universities (Establishment & Operation) Act 2005, Amendment Act of 2011 & Member - Association of Indian Universities Campus: Uparwara, Atal Nagar, Raipur - 492002 (C.G). Contact No.: +91 73039 12186 • www.itmuniversity.org

#### **Appointment for the Position of Vice-Chancellor**

ITM University is established by C. G. Pvt. Universities (Establishment & Operation) Act 2005. Amendment Act of 2011 and is recognized u/s 2(f) of UGC Act 1956. The search committee constituted under section 17(1) of the C. G. Pvt. Universities (Establishment & Operation) Act 2005

invites applications from suitable persons for the post of the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor will be the principal executive and academic officer of the University and shall be responsible for overall management and administration of the University. He should have an accomplished academic and equivalent industry experience with dynamic, proactive and visionary leadership to develop the University's stature both nationally and internationally. The maximum

tenure for the post of the Vice-Chancellor is 4 (four) years. Applicants are advised to send their CV's (in duplicate) along with name of referees, details of relevant academic research, administrative experience, a brief note not exceeding 500 words on "Why the Applicant Considers Himself/Herself suitable for the Position" and three copies of recent passport size photograph of the applicant, within 15 days from the date of advertisement by speed post/courier super scribing the name of the post on the envelope to the addressee indicated below o

email the same on careers@itm.edu Selection by the committee may not be limited to the applications received in response to the advertisement and the committee reserves the right to consider any other eligible persons or to invite such other names as it considers appropriate from higher educational institutions of repute

Please send your application and detail resume within 15 days from the date of advertisement. Dr. Jaywant Shelar (Convenor-Search Committee)

ITM University: Uparwara, Atal Nagar, Raipur - 492002 (C.G). nterested candidate can send their CV on Email: careers@itm.edu

# कोरोना संकट से रियल एस्टेट को उबारने के लिए कर छूट का दायरा बढ़े



नई दिल्ली | **हिन्दुस्तान ब्यूरो** 

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित रियल एस्टेट सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है।

रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने सुझाव दिया कि आवास ऋण के भुगतान पर आयकर अधिनियम की छूट की सीमा बढ़ाई जाए।

वहीं, रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय नारेडको ने सस्ते घरों के लिए मूल्य के 90 प्रतिशत तक कर्ज की सुविधा देने और किराये के मकानों के प्रोत्साहन के लिए किराया आय पर कर कटौती 50 प्रतिशत तक रखने जैसे सुझाव दिए हैं। नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि आवास ऋण के ब्याज में कटौती को आयकर कानन 1961 की धारा 24 के तहत दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए। 30 लाख तक के घरों के लिए कर्ज का मूल्य के साथ अनुपात बढ़ाकर 90% तक किया जाए।

#### निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी कुछ माह घटे

रियल एस्टेट कंपनी अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि निर्माणाधीन घरों पर वित्त मंत्री को जीएसटी घटाकर घर खरीदारों को राहत देना चाहिए। अभी निर्माणाधीन घर पर 5% जीएसटी लगता है। कुछ महीनों के लिए अंडर–कंस्ट्रक्शन घरों पर दरें 0 फीसदी करना चाहिए। इससे घरों की मांग बढाने में मदद मिलेगी और लोगों को सस्ता घर मिल पाएगा। घरों की मांग बढने से नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। इससे लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंगे। यह देश में बेरोजगारी दूर करने और अर्थव्यवस्था में तेज लाने में मदद देगा।

#### निवेशकों को रियायत मिले

संपत्ति मामलों के विशेषज्ञ, प्रदीप मिश्रा ने बताया कि भारत में रियल एस्टेट में सेक्टर में विदेशी निवेशकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने की जरूरत है। इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहां निवेशकों को प्रोत्साहन मिले।

#### घर ही ऑफिस बन गया

प्रॉपर्टी बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम को चलन में ला दिया है। इससे अब घर ही ऑफिस का रूप ले लिया है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में पहली दफा घर खरीदारों को विशेष रियायत देने का ऐलान करना चाहिए।

#### १००% एफडीआई की मंजूरी

जेएलएल (इंडिया) के सीईओ और कंट्री हेड, रमेश नायर ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री को आवासीय प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की मंजूरी देनी चाहिए। साथ ही रियल एस्टेंट को इंडस्ट्री स्टेटस देना चाहिए।

#### छुट से निवेश बढेगा

विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर लोग हाउसिंग लोन लेकर घर खरीदते हैं, और इस लोन को अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से चुकाते हैं। होम लोन की मूल राशि और ब्याज पर ज्यादा छूट मिलने से लोगों की खरीदने की क्षमता बढेगी जिससे रियल एस्टेट को बढावा मिलेगा।

#### सोने और चांदी के दाम में तेजी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और रुपये के मुल्य में गिररावट आने के बाद सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 117 रुपये बढ़कर 48,332 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

इससे पहले शुक्रवार को सोना 48,215 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 541 रुपये बढ़कर 64,657 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। यह शुक्रवार को 64,116 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की गिरावट 73.28 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,834 डॉलर प्रति औंस

#### को कहा कि उसने ब्रिटेन की ट्रांसमिशन डिजाइन प्रौद्योगिकी कंपनी हैवलैंड इंजीनियरिंग में

बिजनेस आपतक

में हिस्सेदारी ली

हीरो मोटर्स ने हैवलैंड

नई दिल्ली। हीरो मोटर्स ने सोमवार

रणनीतिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। हीरो ने एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण से उसे ई-वाहन में मदद मिलेगी।

#### द्वारा मनी में हुआ स्टार्टअप का विलय

**मुंबई।** स्टार्ट-अप कैबदोस्त ने टैक्सी ड्राइवरों और असंगठित क्षेत्र के कामकाजी समुदायों की टैक्स फाइलिंग में मदद के लिए अब इसने अपना विलय द्वारा मनी में कर लिया है। द्वारा मनी, द्वारा की ही पहल है, जिसे पहले आईएफएमआर के नाम से जाना

#### पवनहंस के लिए बोली सीमा एक माह बढी

**नई दिल्ली।** सरकार ने पवन हंस के अधिग्रहण के लिए शुरुआती बोली सौंपने की समयसीमा को एक माह बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा कि मौजूदा कोरोना की स्थिति के मद्देनजर यह फैसला हुआ है।

#### मारुति ने कीमतें ३४ हजार रुपये तक बढाई

**नई दिल्ली।** मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने चुनिंदा मॉडलों की कीमत 34 हजार रुपये तक बढ़ा दी है। कंपर्न ने कहा कि नई कीमतें 18 जनवरी 2021 से प्रभावी हैं। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि किन मॉडलों के दाम बढ़ाए गए हैं।

#### होंडा ने ग्रेजिया का नया मॉडल पेश किया

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचएमएसआई) ने अपने स्कूटर मॉडल ग्रेजिया का स्पोर्ट्स एडिशन सोमवार को पेश किया। इसकी कीमत (शोरूम गुरुग्राम) 82,564

### एडलवाइस ने बीमा नियामक इरडा के निर्देश पर पहला प्लान पेश किया

# नया सरल जीवन बीमा मौजूदा टर्म प्लान से दोगुना महंगा

गनई दिल्ली | **अभिनव कौल** 

सरल जीवन बीमा योजना खरीदने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को झटका लग सकता है। बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को आसान शर्तों और कम प्रीमियम में पॉलिसी लाने का निर्देश दिया था। हालांकि, एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस द्वारा पेश किए गया सरल जीवन बीमा साधारण टर्म प्लान के मुकाबले दोगुना महंगा है।

एडलवाइस टोकियो द्वारा पेश की गई सरल जीवन बीमा योजना में पांच लाख से 25 लाख रुपये का कवर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति पांच से 40 साल तक के प्रीमियम भुगतान की अवधि चुन सकता है। पेश की गई सरल जीवन बीमा पॉलिसी के तहत अगर कोई धूम्रपान नहीं करने वाला 30 साल उम्र का पुरुष व्यक्ति 25 लाख कवर 30 साल के लिए लेता है तो उसे 727 रुपये का मासिक प्रीमियम भुगतान करना होगा। वहीं, कंपनी के मौजूदा टर्म प्लान जिंदगी+ से इसकी तुलना करें तो 390 रुपये का मासिक प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है।

रुपये का मासिक प्रीमियम भुगतान करना रुपय का मासिक प्रामयम मुगतान कर होगा एडलवाइस की नई पॉलिसी के लिए

रुपये का मासिक प्रीमियम पर सरल जीवन

शुरुआती टर्म प्लान के

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि सरल

प्लान के रूप में काम करेगा। मौजूदा

न्यूनतम कवर 25 लाख है और टर्म

अवधि कम से कम 10 साल है।

वर्तमान में 5 लाख कवर देने वाला

कोई भी बीमा प्लान बाजार में उपलब्ध

नहीं है। इस कारण बीमा कंपनियों के

लिए 25 लाख कवर के मुकाबले 5

जीबन बीमा योजना शुरुआती टर्म

समय में जो टर्म प्लान हैं उनमें

रूप में काम करेगा

#### इसलिए प्रीमियम लागत अधिक

उच्च मल्य निर्धारण के पीछे का कारण बताते हुए, महावीर चोपड़ा, बेशक .ओरजी के संस्थापक (बीमा उपयोगकर्ताओं के लिए एक शोध मंच) ने कहा कि इस नए उत्पाद में इरडा की ओर से कोई फिल्टर की अनुमति नहीं दी गई है। बीमा कंपनियां किसी उत्पाद का प्रीमियम तय करने में खरीदारों की जनसांख्यिकी, आय श्रेणी, निवास स्थान, व्यवसाय और शिक्षा के स्तर का उपयोग करते हैं। सरल जीवन बीमा में कोई फिल्टर की अनुमति नहीं है, इसलिए यह महंगा है।



#### लाख का कवर प्लान बनाना महंगा है

स्वास्थ्य बीमा धारकों को राहत

बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा धारकों को बडी रहत देते हुए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह कोविड के इलाज का खर्च का कैशलेस भुगतान पॉलिसी की शर्तों के अनुसार करें। इसके साथ ही बीमा कंपनियों को रियायत देते हुए नियामक ने कहा कि वह चाहें तो स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने वाले संस्थान से इलाज के खर्च को लेकर समझौता कर सकती हैं।

## पर फैसला जल्द

**नई दिल्ली।**उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह म्यूचुअल फंड की छह योजनाओं को खत्म करने की ई-वोटिंग प्रक्रिया पर मिली आपत्तियों की सुनवाई के बाद फ्रैंकलिन टेंपलटन के यूनिट-धारकों को धन वितरण पर

### जीएसटी क्षतिपर्ति को ६,००० करोड़

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को उनकी जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति में कमी की भरपायी के लिए 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी की। इस प्रकार अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ जारी किये जा चुके हैं।

केन्द्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्राप्ति में चालू वित्त वर्ष के दौरान आने वाली संभावित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये राज्यों के लिये एक विशेष उधारी खिड़की की शुरुआत की है। इसी के तहत राज्यों को हर सप्ताह क्षतिपूर्ति राशि

# फ्रैंकलिन निवेशकों

न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ई-वोटिंग पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया। पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासूब्रमण्यन भी शामिल हैं। फ्रैंकलिन के वकील ने कहा पीठ से कहा कि यूनिटधारकों को धन वितरण की अनुमति के लिए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए।

जारी की जा रही है।

## बिकवाली की आंधी में सेंसेक्स ४७० अंक टूटा

#### गिरावट

मुंबई | एजेंसी

वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बीच बंबई शेयर बाजार में सोमवार को सेंसेक्स 470 अंक टूट गया। सेंसेक्स में बड़ा वजन रखने वाले प्रमुख शेयरों इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली दबाव से गिरावट रही।

उतार- चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति पर 470.40 अंक यानी 0.96 प्रतिशत गिरकर 48,564.27 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार व्यापक आधार वाला

निफ्टी सूचकांक भी कारोबार की समाप्ति पर 152.40 अंक यानी 1.06 प्रतिशत गिरकर 14,281.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में ओएनजीसी के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इसमें करीब 5 प्रतिशतकीगिरावट रही।

# विदेशी बाजारों में

#### गिरावट का असर रिलायंस सिक्युरिटीज के रणनीतिक

प्रमुख बिनोद मीदी ने कहा कि वैश्विक बाजारों के रुख का कारोबारी धारणा पर लगातार असर बना रहा। यही वजह रही कि घरेलू बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। अन्य एशियारई बाजारों में शंघाई और हांग कांग सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए वहीं सोल और टोक्यो में गिरावट रही। यूरोप के शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट रही कच्चे तेल का वायदा मानक ब्रेंट कच्चा तेल 0.22 प्रतिशत नीचे 54.98 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

#### डॉलर के मुकाबले रूपया २१ पैसे कमजीर

मुंबई । अमेरिकी डॉलर में मजबूती तथा घरेलू शेयर बाजारों में नरमी के बीच सोमवार को रुपये में गिरावट दर्ज की गयी। प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार, यह अंतरबैंकिंग मुद्रा विनिमय बाजार में 21 पैसे नरम होकर 73.28 प्रति डॉलर पर आ गया रूपया ७३ .२१ प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह ७३ .३० प्रति डॉलर के दिवस के निचले स्तर और 73.18 प्रति डॉलर के दिवस के उच्चतम स्तर के दायरे में रहा। अंततः यह पिछले दिवस के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 73.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

## रत्न-आभूषण क्षेत्र निर्यात के लिए अहम

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत के रत्न और आभूषण उद्योग का विदेशी मद्रा हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान है और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे संभावनाओं से भरे क्षेत्र के रूप में देख

उन्होंने कहा, यही वजह है कि सरकार ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। आज, देश हर साल 35 अरब अमरीकी डॉलर के रत्न और

#### पन्ना और मॉर्गेनाइट के विनिर्माण स्थल के रूप में उभरा

मृत्यु दर के आधार पर तय होता है प्रीमियम

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि किसी बीमा उत्पाद की प्रीमियम

दर लक्षित मृत्यु दर के आधार पर तय की जाती है। चूंकि, यह

नया उत्पाद है और इसमें हमारे पास अभी डेटा नहीं है। इसलिए

पीमियम हम आने वाले समय में मिलने वाले डेटा के आधार पर

तय करेंगे। यानी, आगे इसमें बदलाव संभव है। एडलवाइस को

उम्मीद है कि इस बीमा उत्पाद को उन लोगों द्वारा खरीदा

जाएगा जहां मृत्यु दर अधिक होने की संभावना है।

इसके चलते प्रीमियम लागत अभी अधिक है।

बड़े विनिर्माण स्थल के रूप में उभरा है, और जीजेईपीसी ने पिछले कुछ वर्षों में चांदी की भारी मांग भी देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद ने अगले कुछ वर्षों में रत्न और आभूषणों के निर्यात को 35 अरब डॉलर से बढ़ाकर 75 उँरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं, बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड–19 की वैक्सीन आने के साथ ही सभी प्रमुख बाजारों में रत्न और आभूषणों की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है।

दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में एक है और अमेरिका, हांगकांग, चीन, मध्य पूर्व, रूस जैसे शीर्ष बाजारों की मांग को पूरा करता है। उन्होंने रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय ई-आईजीजेएस (अंतरराष्ट्रीय रत्न और आभूषण प्रदर्शनी) के उद्घाटन समारोह में कहा कि इस व्यापार मेले का

18. NCR144/10/62387/2020 सचिल श्रीवास्तव

NCR144/08/59375/2020 श्री महेन्द्र जुनेजा

टोटल ने अडाणी समह की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 18 हजार करोड़ का समझौता किया है।

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड कं एक उद्यम ) प्रिक्ट सम्बन्धित सरकार का एक उद्यम ) प्रकार सम्बन्धित समित्र विक्रेता पंजीकरण

ावंक्रता पंजीकरण एसबीयू : लॉजिस्टिक्स ऐवाओं द्वारा परिवहन तथ संबंधित संवाओं के लिए अनुमेत विक्रताओं के पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस्कूक फर्मों, पार्टियों से www.balmerlawrie.com पर उपलब्ध विवरण के अनुसार समर्थित दस्तावेंज के साथ विक्रता पंजीयन प्रपन्न (वींआरएफ) जमा करने का अनुसंघ किया जाता है। जमा करने की अंतिम तारीख: 18.02.2021 संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

निदेशक नगर एवं देश योजना, हरियाणा, चंडीगढ़, ने 16.25 एकड़ भूमि पर आवासीय प्लाटेड़ कॉलोनी, सेक्टर 91 व 92, गुरुग्राम, में स्थापित करने हेतु लाईसेंसू नंबर 13 ऑफ़ 2019 दिनांक 06.02 2019 प्रदान किया है। लाईसेंस का एक भाग जो कि 9.5875 एकड़ है, के हस्तांतरण हेतू हमारे अनुमोदन के अनुसरण में, निदेशक नगर एवं देश योजना, हरियाणा, चंडीगढ़, ने नार रेप परा पाजा, हारपाजा, क्यांजा, क्यांजा, जापन संखया एलसी—2523—के —जेई(डीएस)—2021/800 दिनांक 14.01.2021 द्वारा सेद्वांतिक स्वीकृती मैं0 डी. एल. एफ. यूटिलिटिज लिमिटेड के पक्ष में प्रदान की है। अतः इस सार्वजनिव

सार्वजनिक सूचना

के पक्ष म प्रदान की है। अतः इस सावजानक सूचना के तहत सभी ग्राहकों/निवेशको, यदि कोई है तो, जिन्होंने उपरोक्त लाईसेंस भूमि पर कोई स्वाट बुक किया है तो उनसे अनुरोध है, कि अगर उन्हें प्रस्तावित हस्तातरण पर कोई आपत्ति है तो वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ वरिष्ठ नगर योजनाकार, सेक्टर 14, गुरूग्राम, के कार्यालय मे दाखिल कर सकते है। साथ ही आपत्तियों की एक प्रतिलिपि अद्योहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित करे। अन्यथा यह माना जायेगा कि इस प्रस्तावित हस्तांतरण पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है

19, 2021 (नीलू गोयल द्वारा मैंo डीएलएफ यूटिलिटिज लिमिटेड CIN No. U01300HR1989PLC030646

indiamart **INDIAMART INTERMESH LIMITED** 

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1st Floor, 29-Daryagani, Netaji Subash Marg, Delhi -110002, India Phone: (+91) (11) 4999 5600, E-mail: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com **Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for** 

the quarter and nine months ended December 31, 2020 (INR Million except per share data)

Particulars		December 31, 2020	September 30, 2020	December 31, 2019	December 31, 2020	December 31, 2019	March 31, 2020		
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited		
1.	Total Income	1,982	1,811	1,815	5,661	5,202	7,075		
2.	Income from operations	1,736	1,632	1,649	4,899	4,688	6,389		
3.	Net Profit for the period (before	1,065	932	532	3,001	1,503	2,115		
	Tax, Exceptional and/or								
	Extraordinary items but after share								
	of associate)								
4.	Net Profit for the period before tax	1,065	932	532	3,001	1,503	2,115		
	(after Exceptional and/or								
	Extraordinary items)								
5.	Net Profit for the period after tax	802	698	620	2,241	1,031	1,474		
	(after Exceptional and/or								
	Extraordinary items)								
6.	Total comprehensive income for	795	700	618	2,222	993	1,419		
	the period [comprising profit for the								
	period (after tax) and other								
L	comprehensive income (after tax)]								
7.	Equity Share Capital	291	289	289	291	289	289		
8.	Other equity as per previous year					`	2,462		
	(excluding revaluation reserves,								
	if any)								
9.	Basic and diluted earnings per								
	share (Face Value of INR 10 each)								
	(In INR.)								
	Basic EPS	27.61	24.18	21.45	77.46	35.80	51.14		
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not			
		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)			
	Diluted EPS	27.19	23.75	21.12	76.15	35.21	50.24		
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not			
L		annualised)	annualised)	annualised)	annualised)	annualised)			
N	Notes								

Place: Noida

Date : January 18, 2021

17.03.2021

25.03.2021

The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31,2020 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on January 18,2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results

2 The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com

3 The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020 is given below:-

Particulars	December 31, 2020 Audited	Quarter ended September 30, 2020 Audited			ths ended December 31, 2019 Audited	Year ended March 31, 2020 Audited
Total Income	1,974	1,828	1,770	5,649	5,088	6,919
Income from operations	1,729	1,618	1,605	4,860	4,577	6,235
Net Profit before tax	1,078	979	543	3,082	1,530	2,100
Net Profit after tax	815	745	635	2,325	1,062	1,462
For and on behalf of the Board of Directors						

IndiaMART InterMESH Limited

Dinesh Chandra Agarwal (Managing Director and Chief Executive Officer)

## पेट्रोल ८५ रुपये के नए रिकार्ड स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली | **एजेंसी** 

पेटोल और डीजल के दाम में सोमवारको 25 पैसे प्रति लीटरकी वृद्धि की गई। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई जबिक मुंबई में डीजल का दाम 82 रुपये के करीब पहंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी

पेट्रोल की कीमत 84.95 रुपये प्रति लीटर पर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई जबकि डीजल का दाम 75.13 रुपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल, डीजल के दाम में सोमवारको यह वृद्धि तीन दिन तक यथास्थिति बने रहने के बाद हुई है। वाहन ईंधनों के दाम में इससे पहले 13 और 14 जनवरी को दो किस्तों में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। मुंबई में पेट्रोल 91.56 रुपये लीटर पर पहुंच चुकी है।

### अधिसुचना के मृताबिक दिल्ली में दरों में कटौती का फैसला टाल सकता है आरबीआई जरूर गिरावट आई है लेकिन अर्भ

नई दिल्ली | **एजेंसी** 

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दो खरब रुपये की तरलता बाजार को उपलब्ध कराई। हालांकि, इस दौरान केन्द्रीय

बैंक ने अगले माह फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षा में दरों में कटौती का कोई संकेत नहीं दिया। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा महंगाई दर में दिसंबर में

यह चार फीसदी से ऊपर है। दिसंबर में खुदरा महंगाई 4.59 फीसदी रही है।

महंगाई दर को दो से चार फीसदी के दायरे में दो फीसदी घट-बढ़ के साथ रखने का लक्ष्य दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर में विनिर्मित वस्तुओं के सस्ते होने से महंगाई में गिरावट आई है। ऐसे में रिजर्व बैंक आने वाले महीनों मे महंगाई दर में गिरावट के बाद ही दरें

सरकार ने रिजर्व बैंक को

घटाने पर विचार करेगा।

जीजेईपीसी के चेयरमैन कॉलिन शाह ने कहा कि भारत पन्ना और मॉर्गेनाइट के

**RERA** 

आभूषणों का निर्यात करता है और

आयोजन सही वक्त पर हो रहा है।

#### अडाणी-टोटल में 18 हजार करोड़ रुपये का करारः फ्रांस के तेल और ऊर्जा समूह

गुरूग्राम जनवरी 19, 2021

## -सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर-201308

पब्लिक नोटिस उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, में विचाराधीन शिकायतों से सम्बन्धित वादी/प्रतिवादी को एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके नाम के सम्मुख अंकित सुनवाई तिथि पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा० पीठ के समक्ष उपरिथत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत

	Б. Я.	शिकायत सं०/ शिकायतकर्ता का नाम	प्रतिवादी	सुनवाई की अगली तिथि
1	1.	ADJ/NCR144/08/59093/2020 श्री अरविन्द कुमार झा	मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	22.01.2021
2	2.	NCR144/09/60634/2020 श्री सिद्धार्थ शर्मा	मेसर्स प्रीमिया प्रोजेक्ट्स लि०	25.01.2021
[	3.	ADJ/NCR145/07/56576/2020 श्री कृतिका वर्मा	मेसर्स अंसल अर्बन कन्डोमिनियमस प्रा०लि०	29.01.2021
4	1.	NCR144/10/63204/2020 श्रीमती अनुपमा और ब्रह्म चन्द	अजनारा इण्डिया लि०	01.02.2021
4	5.	NCR144/08/55547/2020 श्री राजीव कुमार सिन्हा NCR144/10/62911/2020 श्री रवि कुमार	अजनारा रियलटेक लि०	01.02.2021
1	3.	NCR144/08/58928/2020 श्री/श्रीमती मनु भूतानी	मेसर्स एस०जे०पी० इन्फ्राकॉन लि०	02.02.2021
	7.	NCR144/09/1103/2019 श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल	मेसर्स प्रीमिया प्रोजेक्ट्स लि० अपंजीकृत	03.02.2021
8	3.	NCR144/07/57301/2020 श्री शाकालदेव कुमार यादव NCR144/08/57831/2020 श्री सुप्रतिक मुखर्जी	मेसर्स अशोका बिल्डर्स	17.02.2021
9	9.	NCR169/08/58787/2020 श्री अर्रविंद गुप्ता	मेसर्स अग्रवाल प्रॉपर्टीज एण्ड डेवलपर्स	17.02.2021
ľ	10.	NCR144/07/55513/2020 श्रीमती ऊषा सेनी व हर्ष सेनी	श्री कृष्ण चन्द्र बंसल	17.02.2021
ľ	11.	NCR144/09/60057/2020 श्री नारायण सिंह भदौरिया	मेसर्स फ्यूटेक शेल्टर्स प्रा०लि०	19.02.2021
Ľ	12.	NCR144/09/61935/2020 प्रीती रावत पाण्डे	मेसर्स रूद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०	01.03.2021
ľ	13.	NCR144/09/60899/2020 श्री के० शशीधरन	मेसर्स यूपी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लि०	02.03.2021
	14.	NCR144/08/52559/2020 श्रीमती बबीता सक्सेना NCR144/06/54525/2020 श्री विश्वजीत पाठक NCR144/06/54535/2020 श्री गोपाल कुमार NCR144/06/54709/2020 श्रीमती अनुपम कुमारी NCR144/07/55975/2020 श्री विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी	मेसर्स कॉसमॉस इन्फ्रास्टेट प्रा० लि०	02.03.2021
Ľ	15.	NCR145/09/60178/2020 श्री ब्रजपाल	मेसर्स के०एस०एन० बिल्डवेल प्रा० लि०	03.03.2021
Ľ	16.	NCR145/08/57754/2020 श्री ऊधम सिंह	मेसर्स प्राव्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लि०	05.03.2021
ľ	17.	NCR145/08/0530/2019 श्रीमती सैला सैमुअल	मेसर्स मासकॉन (अपंजीकृत)	10.03.2021
	1	0 0	\ (\) (\) (\)	

शिकायत का पूरा विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.up-rera.in पर Complaint Link Click कर देखा जा सकता है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा० पीठ से जुड़ने हेतु लिंक रजिस्टर्ड ई–मेल आईडी पर नियत सुनवाई तिथि से 02 दिन पूर्व भेज दिया जायेगा वादी/प्रतिवादी को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी।

मेसर्स ओसिस रियलटेक प्रा० लि०

मेसर्स पी०एस० इम्पैक्स प्रा० लिए